



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33]
No. 33]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 1978/माघ 5, 1899
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 1978/MAGHA 5, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

सारणी

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1978

सीमा-शुल्क

सा०का०वि० 41 (ख) —केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 69 के अन्तर्गत आने वाली चीनी मिट्टी की छड़ों को, तब जब भारत में उसका आयात सीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट ताप प्रतिरोधकों से भिन्न प्रतिरोधकों के विनिर्माण के लिए किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 45 प्रतिशत से अधिक हो :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके, स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह संबंधित चीनी मिट्टी की छड़ों की ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित नहीं किया गया है कि वह पूर्वोक्त प्रतिरोधकों के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया है, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न किए जान की दशा में उस मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

1. 20 वाट तक की शक्ति वाले कार्बन फिल्म प्रतिरोधक
2. 20 वाट तक की शक्ति वाले मेटल फिल्म प्रतिरोधक
3. 20 वाट तक की शक्ति वाले मेटल फ़ायरसाइड फिल्म प्रतिरोधक

[स० 18/का०स०एस०/1/78/टी०प्रार०यू० (सीमा-शुल्क)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts ceramic rods, falling within Chapter 69 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of resistors other than heating resistors specified in the Table below, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 45 per cent ad valorem :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on

demand, in respect of such quantity of the ceramic rods, in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of aforesaid resistors, an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation.

TABLE

1. Carbon film resistors of power rating upto 20 watts.
2. Metal film resistors of power rating upto 20 watts.
3. Metal oxide film resistors of power rating upto 20 watts.

[No. 18/F. No. S. 1/78-TRU(Cus)]

सीमा-शुल्क

सांख्यिकी 42(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 123-सीमा-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं० 168 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित व्रतः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

“169 सं० 18-सीमा-शुल्क, तारीख 25-1-1978” ।

[सं० 19/का० सं० एस० 1/78-टी० आर० यू० (सीमा-शुल्क)]

जोसेफ डोमिनिक, अवर सचिव

CUSTOMS

G.S.R. 42(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 123-Customs, dated the 1st July, 1977, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 168 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“169. No. 18-Customs, dated the 25th January, 1978.”

[No. 19/F. No. S. 1/78-TRU(Cus)]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.